



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2016/माघ 30, 1937

No. 458]

NEW DELHI FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/MAGHA 30, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2016

का.आ. 536(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए के कि.मी. 0/000 से कि.मी. 19/550, कि.मी. 22/625 से कि.मी. 23/950 (आर एच एस), कि.मी. 23/950 से कि.मी. 27/400, कि.मी. 29/000 से कि.मी. 31/400, तक के भूखण्ड (विल्लुपुरम — पुडुचेरी — कुडलूर — नागापट्टीनम सेक्शन) के निर्माण (बाईपास/चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग, विल्लुपुरम को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या

तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

#### अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए के कि.मी. 0/000 से कि.मी. 19/550, कि.मी. 22/625 से कि.मी. 23/950 (आर एच एस), कि.मी. 23/950 से कि.मी. 27/400, कि.मी. 29/000 से कि.मी. 31/400, (विल्लुपुरम – पुडुचेरी – कुडलूर – नागापट्टीनम सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम	अनांगुर	651/5सी	निजी	शुष्क	514

[फा. सं. भाराराप्रा-एचक्यू/11013/2011-एलए/नोटिफ/पीआईयू-विल्लुपुरम/एफटीएस-78]

माया प्रकाश, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2016

**S.O. 536(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Bypass/widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.45A in the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 19/550, Km.22/625 to Km.23/950 (RHS), Km. 23/950 to Km. 27/400, Km. 29/000 to Km. 31/400 (Viluppuram - Puducherry - Cuddalore - Nagapattinam Section) in the district of Viluppuram in the State of Tamil Nadu hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer (Land Acquisition), National Highways, Viluppuram, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a

legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### SCHEDULE

Brief description of the lands to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 19/550, Km.22/625 to Km.23/950 (RHS), Km. 23/950 to Km. 27/400, Km. 29/000 to Km. 31/400 (Viluppuram-Puducherry-Cuddalore-Nagapattinam Section) of the National Highway No.45A in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Viluppuram	Viluppuram	Anangur	651/5C	Private	Dry	514

[F. No. NHAI-HQ/11013/2011-LA/Notif./PIU-Villuppuram/Fts-78]

MAYA PRAKASH, Director